

BIHAR SPONGE IRON LIMITED.

REGISTERED OFFICE & PLANT : UMESH NAGAR, CHANDIL-832401, DISTT. SARAIKELA - KHARSAWAN, JHARKHAND
PHONE (EPABX) : 06591-232410, 232417, Fax : 06591-232412
E-mail : bsilchandil@gmail.com / Web : bsil.org.in, CIN : L27106JH1982PLC001633

BSIL/CS/SE/2021

Dated: 21st August, 2021

The General Manager
Listing Centre
BSE Limited
P J Towers, Dalal Street,
MUMBAI- 400 001

Subject - Publication of Notice of 39th Annual General Meeting etc.

Scrip Code - 500058

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Clause 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have pleasure to furnish herewith the newspaper clippings of Notice of 39th Annual General Meeting scheduled to be held on 15th September, 2021, through Video Conferencing/Other Audio Visual Means, Remote E-Voting Information, Record Date and Book Closure details, published in newspapers – Financial Express - English – Delhi edition and Naya India - Hindi, Ranchi edition on Saturday the 21st August, 2021.


The same will also be available on Company's website.

The above is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bihar Sponge Iron Limited



Vimal Prasad Gupta
Company Secretary &
Compliance Officer
FCS 6380
PH. EXT. 011-4250 4660
E-mail: companysecretary@bsil.org.in

Attached – A/a

INDAG RUBBER LIMITED
 CIN: L74899DL1978PLC009038
 Regd. Office: Khemka House, 11 Community Centre, Saket, New Delhi - 110017
 Email: info@indagrubber.com; Website: www.indagrubber.com; Phone: 011-26963172-73
NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE(S)
 NOTICE is hereby given to the general public that the following share certificate(s) of the company are reported to be lost/not traceable by the shareholder(s):

S.N.	Name of the Shareholder	Folio No.	No. of shares	Share Certificate No.	Distinctive No.
1.	Sooni Jal Taraporewala / Russi Jal Taraporewala	S04827	40000	1954	685546-725545

Members of public are hereby cautioned that buying, selling or otherwise dealing in the above mentioned share certificate(s) by any person shall be illegal and he shall do so at his own risk. The company will not liable for the same.
 Notice is hereby further given that the company has received a request for issue of duplicate share certificate in lieu of the original.
 If no objection is received from any members or the public within 15 days from the date of publication of the notice, then the company will proceed to issue duplicate share certificate in lieu of the aforesaid lost share certificate.

For Indag Rubber Limited
 Place: New Delhi
 Date: August 20, 2021
 Company Secretary

JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED
 CIN: L74899DL1982PLC014411
 Regd. Office: 208, Magnum House-II, Karampura Community Centre, New Delhi 110015
 Ph: 011-45090162, E-Mail: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, Web: www.jtel.co.in

NOTICE
 Notice is hereby given that the Thirty-Eighth Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of the Company will be held on **Thursday, 16th September, 2021 at 11.30 AM** at the Registered Office of the Company at 208, Magnum House-II, Karampura Community Centre, New Delhi 110015 to transact the business as details contained in the Notice sent to members whose email addresses are registered with RTA / DP / Company, together with Audited Accounts, Reports of the Company for the financial year ended 31st March, 2021.

The said Integrated Annual Report is available on the Stock Exchange website (www.mseil.in) and company's website (www.jtel.co.in) and also available for inspection at the registered office of the company on all working days during business hours upto the date of the AGM. The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the meeting by electronic means (e-voting). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the agency to provide e-voting facility. The Communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password alongwith a copy of the Notice convening the AGM has been despatched to the members through electronically. The Notice of the AGM and format of Communication for e-voting is available on the website of the stock exchange (www.mseil.in). CDSL (agency providing the remote e-voting and system during AGM) (www.evotingindia.com) RTA/STA of the Company (www.skylinert.com) and company (www.jtel.co.in).
 The remote e-voting facility shall commence on Sunday, 12th September, 2021 from 10.00 A.M. (IST) and end on Wednesday, 15th September, 2021 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.
 A person whose name appears in the register of members as on cut-off date i.e. Wednesday, 11th September, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting at the AGM. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again.
 Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 as amended from time to time in the Register of the Members and the Share Transfer Book of the Company shall remain closed from Thursday, 09th September 2021 to Thursday, 16th September 2021 (both days inclusive) for the purpose of 38th Annual General Meeting of the Company.
 Pursuant to provision of Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule 2014 as amended and Regulation 44(5) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the Company is providing facility of Video Conference (VC) / Other Audio Video Means (OAVM) through remote e-voting of AGM. Members who are entitled to participate in the AGM can view the proceedings of AGM by logging on to the e-voting website at <https://evotingindia.com> using their secure login credentials, provided for e-voting. Members are encouraged to use this facility of webcast.
 The Board of Director has appointed D. Gupta, M/s. SGS Associates, (Company Secretaries Firm) having Regn. No. F2411 and CP No. 1508 as Scrutinizer for conducting the e-voting & remote e-voting process in a fair and transparent manner. Scrutinizer will submit the final report as soon as possible after the last date of receipt of e-voting but not later than closing of the business hours on 15th September 2021. The Result alongwith report of Scrutinizer shall be immediately forwarded to Stock Exchange - MSE.
 Shareholders can access the website of the CDSL (www.evotingindia.com), RTA / STA (www.skylinert.com) and Company (www.jtel.co.in) for instruction for e-voting, Video Conferencing (VC) and other audio video (OAVM).
 Please keep updated registered email id with the DP / RTA-STA / Company to received timely communication from the Company.
 In case of any queries, issues or grievances regarding e-voting, member may refer the FAQ and e-voting manual available at www.evotingindia.com in under help section or write and email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or write & email to RTA info@skylinert.com, admin@skylinert.com
 By Order of the Board
 For Jagat Trading Enterprises Limited
 Place: New Delhi
 Dated: 21.08.2021
 P K Goel (Director)
 DIN: 00021153

BIHAR SPONGE IRON LTD.
 Regd. Office: Umesh Nagar, Chandli, Saraikeela-Khasraan, Jharkhand 832401
 Ph: 06591-232410, 232417, Fax: 06591-232412
 E-Mail: companysecretary@bsil.org.in
 CIN: L27106JH1982PLC001633, www.bsil.org.in;

NOTICE OF THE 39th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE
 NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Bihar Sponge Iron Limited (the "Company") will be held on **Wednesday, 15th September, 2021 at 04.00 P.M.** (IST) through Video Conferencing (VC) facility / other audio visual means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In view of the continuing COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs dated 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020, dated April 13, 2020 and dated 13th January, 2021, (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular dated May 12, 2020, have permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without requiring the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.
 In accordance with the aforesaid circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 are being sent only by electronic mode to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent/Depositories as on 13th August, 2021. The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the FY 2020-21 is available on the website of the Company at www.bsil.org.in as well as on the website of BSE at www.bseindia.com. The company has sent notice of AGM and Annual Report only through e-mail to the shareholders on 20th August, 2021.
 Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.
 The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting using the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.
 The remote e-voting shall commence from 12th September, 2021 at 9.00 A.M. and ends on 14th September, 2021 at 5.00 P.M. The cut-off date (record date) is 8th September, 2021 for e-voting.
 In case of Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, are requested to please follow the below instructions to register their e-mail address for obtaining Annual Report 2020-21 and login details for e-voting:
 1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to Company/RTA email id.
 2. For Demat shareholders- please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to Company/RTA email id.
 The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 9th September, 2021 to 15th September, 2021 (both days inclusive).
 In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 022-23058542/43.
 By order of the Board
 For Bihar Sponge Iron Ltd
 Place: New Delhi
 Date: 20.08.2021
 Vimal Prasad Gupta
 (Company Secretary)

INDIAN RAILWAYS
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
E-TENDER NO. 2021RS19541TC
CORRIGENDUM NO. 2
 1.0 Tender closing date of e-tender No. 2021RS19541TC for procurement of 8,875 nos. various types of wagons, is extended from 26.08.2021 to 06.09.2021.
 2.0 All other terms and conditions of the tender will remain unchanged.
 Director, Railway Stores (W),
 Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi,
 for and on behalf of the President of India.
 1860/2021
SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
 1911 से आपके लिए "सेंट्रल" TO YOU SINCE 1911
 R.O. DELHI (SOUTH) 4/54, D.B. GUPTA ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
INVITATION OF BIDS/OFFERS FOR PREMISES ON LEASE
 Central Bank of India requires premises in Approved Commercial Area in New Delhi for its following branch.

Sl. No.	Name of Branch	Carpet Area Required in Sq.ft. (Approx.)	Location
1.	OKHLA BRANCH NEW DELHI-110020	1200-1800	Okhla Industrial Area

Premises should be preferably on the ground floor in ready possession with adequate parking space in approved commercial area with all basic amenities. No Brokers or intermediaries please. Priority will be accorded to Govt./Semi Govt. bodies or public sector undertakings. Kindly download the formats/terms and conditions from the website: <https://www.centralbankofindia.co.in> or collect the same from Central Bank of India, Regional Office (South) 4/54, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 during office hours. The last date for submission of offers is **06.09.2021 upto 5:00 P.M.** Bank reserves its rights to accept or reject any/all offers without assigning any reasons whatsoever.
 (Senior Regional Manager)

“IMPORTANT”
 Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

“FORM INC-26”
 [Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
 Before the Central Government
 Regional Director, Northern Region
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule 14 of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 AND
 In the matter of RAWAT ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
 CIN : U45200DL2008PTC180757
 having its registered office at, 314, KRISHNA, GALI NO. 9 MAUZPUR, DELHI-110053.
 Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on **Monday, 16th August, 2021** to enable the Company to change its Registered office from NCT of Delhi to the State of Uttar Pradesh. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing Investor Complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Central Government, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Anand Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at, 314, KRISHNA, GALI NO. 9 MAUZPUR, DELHI-110053.
 For and on behalf of the Board of Directors
 RAWAT ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
 Complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Registrar of Companies, Delhi, within 21 (twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.
 For and on behalf of CAREFOUR TRADING LLP
 GHANSHYAM DASS JAIN-1 (Designated Partner)
 Address: Kc-41, Kavi Nagar, Ghaziabad Uttar Pradesh-201002, India
 Date: 21/08/2021
 Place: DELHI

“FORM NO. INC-25A”
 Advertisement to be published in the newspaper for conversion of Public Company into a Private Company
 Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region
 AND
 In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of the Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 as amended upto date
 AND
 In the matter of MODI KNITS AND LACES LIMITED
 CIN : U17300DL1993PLC045814
 having its registered office at 37-A, Rajpur Road Delhi-110054
Petitioner/Applicant
 NOTICE
 Notice is hereby given to the general public that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a "Private Limited Company" in terms of the special resolution passed at its Extra-Ordinary General Meeting held on 30th July, 2021 to enable the company to give effect for such conversion.
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region (B-2 Wing, 2nd Floor, Parvavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003), within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office situated at: 37-A, Rajpur Road Delhi-110054.
 For and on behalf of the Applicant
 MODI KNITS AND LACES LIMITED
 Complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director at B-2 WING, 2ND FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEWDELHI-110003, withinfourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below.
 For and on behalf of applicant
 M/s SIDDARTH AND GAUTAM ENTERPRISES LIMITED
 Sal-
 (VAIBHAV CHUGH)
 Director
 Date: 20.08.2021
 Place: New Delhi
 DIN: 08354609
 203, 2ND FLOOR 16-A, UDAY PLAGA, UDAY PARK, NEW DELHI-110048

HDFC HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.
 The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marg, New Delhi-67
 CIN L70100MH1977PLC019916 Website: www.hdfc.com

DEMAND NOTICE
 Under Section 13 (2) of the Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (Act) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
 Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Housing Development Finance Corporation Ltd. (HDFC Limited) under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s, within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below. The undersigned have, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known respective addresses of the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s). Copies of the said Notices are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.
 In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) to pay to HDFC Limited, within 60 days from the date of publication of this Notice, the amounts indicated herebelow in their respective names, together with further interest @ 18% p.a. as detailed in the said Demand Notices from the respective dates mentioned below in column (c) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to HDFC Limited by the said Borrower(s) respectively.
 Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s.

PRAG BOSIMI SYNTHETICS LIMITED
 CIN: L17124AS1987PLC002758
 Regd. Off: House No.4, Ambikagiri Nagar, Milan Path, R. G. Baruah Road Guwahati - 781 024.
 Corp. Office: R-79/83, Laxmi Insurance Building, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai - 400001.
 Tel: 022 22663031 Website: www.pragbosimi.com E-Mail: secretaria@bosimi.com

NOTICE OF THE 29th ANNUAL GENERAL MEETING TO THE MEMBERS
 NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **September 29, 2021 at 3.00 p.m.** Indian Standard Time (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM which will be circulated for convening the AGM.
 In view of the continuing COVID 19 (Coronavirus) pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its Circular Nos. 20/2020 and 02/2021 dated May 05, 2020 and January 13, 2021 respectively read with its Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 08, 2020 and April 13, 2020 respectively (collectively referred to as the "MCA Circulars") permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members of the Company. Accordingly, in compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.
 The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21 will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / its Share Transfer Agent (STA) or relevant Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and Circulars Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 will also be made available on the Company's website at www.pragbosimi.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
 The Company will be providing remote e-voting facility ("Remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting will be provided in the Notice of the AGM.
 The Shareholders holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company / RTA may get registered their email addresses at https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html by providing details such as Select company name from drop box, Folio Number, certificate Number, Shareholder name, PAN, mobile number, email id and also upload the image of share certificate and PAN card in PDF or JPEG format (up to 1MB). The facility for registration of bank details for the Shareholders holding shares in physical form are also available at https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html by providing details such as Bank account no, bank name, IFSC code and also upload self-attested cancelled cheque leaf along with request letter duly signed in PDF or JPEG format (up to 1MB) at the earliest but not later than August 28, 2021. Alternatively, shareholders can send email to mt.helpdesk@linkintime.co.in for all their requests including updating email addresses, mobile number, change of address bank account details etc.
 Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses are requested to refer to the Notice of the AGM for processes to be followed for obtaining the User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
 For Prag Bosimi Synthetics Limited,
 Sal-
 Raktim Kumar Das
 Whole Time Director
 DIN No.: 05115126
 Date: 19.08.2021
 Place: Mumbai

Form No. INC-19
 Notice
 [Pursuant to rule 22 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
 i) Notice is hereby given that in pursuance of clause (1) of sub-section (4) of section 8 of the Companies Act, 2013, an application has been made by SUSTAINABLE SPICES INITIATIVE - INDIA to the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana at New Delhi for revocation of the license issued to it under sub-section (5) of section 8 of the Companies Act, 2013 after the cancellation of License of the company will be required to add the word "Private Limited" to its name.
 2. The principal objects of the company are as follows:
 i. To undertake, promote, aid, foster sustainability in the spices sector in India in order to make transparent, credible and traceable sustainable spices a mainstream commodity in the country which will cater to the needs of both the domestic and international markets.
 ii. To develop and promote a pre-competitive multi-stakeholder platform for collaboration and knowledge exchange in spices sustainability.
 iii. To understand and address specific challenges to sustainability in spices cultivation including but not limited to: overuse of agrochemicals, farmer livelihoods, farming community development, deploying soil health, degrading water resources, and other issues which require a strategic, inclusive and broader approach from front-runner players in the spices sector, including advocacy and dialogues with governments, input suppliers and local players, supported by international market actors and the sustainable spices initiative.
 iv. To encourage, undertake, promote, aid, foster and participate in innovations, research and development in the field of sustainable spices, with not for profit motive.
 v. To accelerate and upscale sustainability in the Indian spices sector to secure future sourcing and to boost economic growth in the country by coordinating interested companies to a scalable supply base producing sustainable products.
 vi. To leverage the demand for sustainable production in the supply chain by building a strong public-private coalition of companies, civil society organizations and government, with not for profit motive.
 vii. To commission and manage field level engagements for increasing the production and supply of sustainably produced spices in order to positively impact the triple bottom line - People, Planet and Profit.
 viii. To generate funds in order to achieve the objectives of the Company from local and international sources to the extent permitted by the applicable laws.
 ix. None of the activities will be carried out on commercial basis.
 Provided that the Company shall not support with its funds, or Endeavour to impose on, or procure to be accepted by its members or others, any regulation or restriction which, as an object of the Company, would make it a trade union
 3. A copy of the draft memorandum and articles of the proposed company may be seen at B-410, Pocket B, Sarita Vihar, New Delhi - 110076, India.
 4. Notice is hereby given that any person, firm, company, corporation or body corporate, objecting to this application may communicate such objections to the Registrar at New Delhi within thirty days from the date of publication of this notice, by a letter addressed to the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, 4th Floor, FCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019 a copy of which shall be forwarded to the Applicant at B-410, Pocket B, Sarita Vihar, New Delhi-110076, India.
 For SUSTAINABLE SPICES INITIATIVE - INDIA
 Sal-
 1. Jasmer Dheera
 2. Vishal Gupta
 Date: 20th August, 2021

Sr. No.	Name of Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s)/ Guarantor	Total Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Description of Secured Asset(s) / Immovable Property (ies)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	MR THANGARAJ M A/C No: 614633631	Rs. 32,98,704/- as on 28-FEB-2021*	05-MAY-2021	All that piece and parcel of property bearing Regular-Apartment No. 006, with a Super built-up area of 985 Sq.Ft (Plinth area plus a proportionate common area) in the Ground Floor, in "Heights 6" of the project named "Temple Green-Heights", together with 330.5 Sq.Ft of Undivided share of land in out of 591.75 Cents., comprised in Survey Nos. 30/2part (14.25 cents), 30/5part (1.75 cents), 33/4 (19 Cents), 35/5part (5.25 Cents), 34/1part (5.2 Cents), 34/2part (19 Cents), 34/3part (6 cents), 35/2part (12.50 Cents), 93/1B (33 Cents), 35/3part (57.50 Cents), 93/1A part (30.50 Cents), 93/1C (30 Cents), 33/2part (11Cents), 137/4part (11.25 Cents), 137/5part (10.50 Cents), 32/7part (12.50 Cents), 33/7part (8Cents), 34/4 (18Cents), 34/5 (18 Cents), 92/2part (6.25 Cents), 93/2 (59 Cents), 137/1Part (23.25 Cents), 137/2part (17Cents), 33/1part (0.50 Cents), 33/3part (6 cents), 92/1part (30 Cents), 137/6 (15 Cents), 94/1part (64.75 Cents), in total extent an 591.75 Cents or (257766.30 Sq.Ft), situated at Old No.180, New No. 135, Mathur Village, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, within the Registration District of Chengalpattu and Sub-Registration District of Sungavarchathiram
2.	MR DEEPAK SANDILYA A/C No: 649492319	Rs. 17,20,690/- as on 31-JULY-2021*	17-AUG-2021	FLAT NO F-3, LIG 1ST FLOOR, NEELKANTH APARTMENT, PLOT NO 14, SHALIMAR GARDEN, EXTENSION-1, GRAM PASONDA, LONI, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH
3.	MR SHAISHAV JAIN & MRS USHA JAIN A/C No 624622868 & 624237939	Rs. 54,53,374/- as on 31-JULY-2021*	17-AUG-2021	PLOT NO. 134, SCHEME NO.15, SURYA NAGAR, TARON KI KOOT, TONK ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN AND CONSTRUCTION THEREON PRESENT AND FUTURE
4.	Smt. Preeti W/o. Late Sh. Naresh Durga (In The Capacity Of Legal Heir/ Representative Of The Deceased Borrower Late Sh. Naresh Durga S/o. Sh S.B. Durga.) R/O House No : 914, Sunny Enclave, Sector : 125, Kharar, Punjab - 140301 And Other Known And Unknown Legal Heir(S) And Legal Representative(S) Of Late Sh. Naresh Durga S/o. Sh S.B. Durga (Since Deceased) Sh. Satnam Singh S/O Late Sh. Thakur Singh, Smt Surjit Kaur W/O Sh. Satnam Singh And Smt. Deepinder Kaur W/O. Sh. Charanjit Singh (In The Capacity Of The Mortgagor), All R/O Plot No. : 2005, Sunny Enclave, Desumajra, Tehsil : Kharar, Distt. : S.A.S. Nagar - 140301 Sh Manmohan Singh, S/O Sh. Makhan Singh House No 347, Sector 46, Faridabad -121001 (For information) A/C No: 615917167	Rs. 1,01,40,870/- as on 30-JUN-2021*	02-AUG-2021	SECURED ASSET NO.1 House No 347, Sector 46, Faridabad-121001 SECURED ASSET NO. 2 Plot of land bearing Khawat No. 135, Khatouni No. 162, Khasra No. 16/6/2 (6-16), 15 (4-13), 16 (4-3), 25/1 (0-18), Kitta 4, being 32/990 share of total land measuring 16 Kanals 10 Marlas admeasuring 0-10 2/3 Marlas or 268 sq. mts, situated at Village Fatehllapur, Hadbast No. 30, Tehsil Kharar, Distt. SAS Nagar and construction thereon both present and future registered in favour of Sh. Satnam Singh, S/o Late Sh. Thakur Singh, Smt Surjit Kaur, W/o Sh. Satnam Singh, Smt. Deepinder Kaur, W/o Sh. Charanjit Singh vide Sale Deed dated 08.09.2008 bearing Vasika No. 3069. The said plot can also be identified as Plot No. 2005, measuring 320.66 Sq. Yds. Sunny Enclave, Desumajra, Tehsil Kharar, Distt. SAS Nagar. The said plot is bounded as under: North: Plot No. 2006, side measuring 78', South: Plot No. 2004, side measuring 78' East: Plot of other owner, side measuring 37', West: Street 50' wide, side measuring 37' SECURED ASSET NO. 3 Unit No. 764, GF, Luxury Floors, measuring 144 sq. mts or 1555 sq. ft., Ansal Golf Links, Sector 114, Kharar Landran Road, Tehsil Kharar, Distt SAS Nagar
5.	Mr. Rajesh Negi S/O. Mr. Tej Singh Negi (Borrower), R/O House No. : 4978, First Floor, Gali No. : 113, Block - B, Sant Nagar, Burari, North Delhi, Delhi - 110084. Loan A/C Nos : 625987091 and 626674213	Rs. 66,83,744/- as on 30-JUN-2021*	05-AUG-2021	Flat No.604, Second Floor along with proportionated share of land underneath having a Super built up area of approx. 1560 sq. ft. or 145 sq. Mts. in building called PALM RESIDENCY, in the project known as "THE PALM" situated at Mullanpur, SAS Nagar, Mohali allotted in favour of Sh. Rajesh Negi S/o Sh. Tej Singh Negi Vide allotment letter dated 23.06.2017

*with further interest @ 18% p.a. as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization.
 If the said Borrower (s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) shall fail to make payment to HDFC Limited as aforesaid, then HDFC Limited shall proceed against the above Secured Asset(s) / Immovable Property (ies) under Section 13 (4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) as to the costs and consequences.
 The said Borrower (s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset (s) / Immovable Property (ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of HDFC Limited. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.
 For Housing Development Finance Corporation Ltd.,
 Sal-
 Authorised Officer
 Regd. Office: Ramon House, H T Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai- 400020

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE (APPENDIX - IV A) (Rule 8(6))
 Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL Home Finance) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrowers, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property as described hereunder, which is in the possession, "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATSOEVER THERE IS" BASIS. Particulars of which are given below:-

Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date & Amount	Description of the Immovable property/ Secured Asset	Date of Physical Possession
1) Mr. Ram Narash 2) Mrs. Saravah Kumari (Prospect No.729404)	20-Dec-2019, Rs. 12,18,670/- (Rupees Twelve Lakh Eighteen Thousand Six Hundred and Seventy Only)	All that part and parcel of the properties bearing Flat No. 11, LIG Block-C9, Pocket-4, 1 st Floor, Sec-34, Rohini, Delhi. (Area-355 Sq.ft)	01-Feb-2021
	Reserve Price Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakh Only)	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh Only)	Total Outstanding as on date 19-August-2021 Rs. 13,75,622/- (Rupees Thirteen Lakh Seventy Five Thousand Six Hundred and Twenty Two Only)
Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date & Amount	Description of the Immovable property/ Secured Asset	Date of Physical Possession

